



# HAMIRPUR POLICE



थाना राठ

दिनांक-12.09.2022

## लूट की घटना का खुलासा, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध असला/कारतूस व चोरी का माल बरामद:-

अवगत कराना है कि दिनांक 06.09.2022 को वादी श्री मोहन पुत्र स्वामीदीन निवासी ग्राम कैथा थाना राठ जनपद हमीरपुर की सूचना के आधार पर थाना राठ पर अभियुक्तगणों द्वारा वादी व वादी की भाभी को कैथा मार्ग पर रोककर अवैध तमंचा दिखाकर वादी से उसका पर्स तथा ज्वेलरी छीन लेने के सम्बंध में थाना राठ पर मु0अ0सं0 468/22 धारा 392/504/506 भादसं बनाम अज्ञात के पंजीकृत हुआ था। दिनांक 10.09.2022 को प्राप्त सूचना के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्त भूरा उर्फ हरिकिशन पुत्र परमेश्वरीदयाल निवासी ग्राम कुल्हैण्डां थाना मझगवां जनपद हमीरपुर तथा अभियुक्त सैफी मंसरी पुत्र सत्तार मंसूरी निवासी पावर हाउस के पास कस्बा व थाना पनवाडी जनपद महोबा के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त की घटना में प्रयुक्त की गई एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल हीरो एच एफ डीलक्स बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा एक अभि0 मुलायम निवासी ग्राम औडेरा मौके से भागने में सफल हो गया। अभियुक्त भूरा उपरोक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व एक अदद कार0 315 बोर जिंदा एवं मुकदमा उपरोक्त में लूटे गये रूपये से 1200 रूपये व वादी मुकदमा श्री मोहन उपरोक्त का आधार कार्ड तथा अभि0 सैफी उपरोक्त के कब्जे से दो अदद जिंदा कार0 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्तगण भूरा व सैफी द्वारा पूछताछ करने पर स्वीकार किया कि महोबा में दिनांक 29-30 अगस्त की रात में रेलवे क्रांसिंग के पास छतरपुर रोड पर चोरी किया था, दो माह पूर्व कुरा रोड पर मकान के अंदर घुसकर चोरी किया था तथा उसके करीब एक माह बाद ग्राम बरदा में घर में घुसकर चोरी किया था। इन चोरियों में उन्हें काफी रूपया व जेवरात मिला था कुछ रूपये खाने पीने एवं शौक में खर्च हो गये तथा बाकी रूपये हम लोग जुआ में हार गये जेवरात के बारे में पूछने पर बताया कि हरपालपुर में कल्लू नाम के दोस्त को दे दिया है जो जेवरात बेचकर हमको रूपये दे देता है जिसे हम लोग आपस में बांट लेते हैं, कुरा रोड पर हुई चोरी के सम्बंध में थाना राठ पर मु0अ0सं0 385/22 धारा 457/380 भादसं पंजीकृत है तथा ग्राम बरदा में हुई चोरी में थाना राठ पर मु0असं0 398/22 धारा 380 भादसं पर पंजीकृत है। तथा बरामदगी के आधार पर मु0असं0 468/22 धारा 392/504/506 भादसं में धारा 411 भादसं की बढोतरी की गई तथा भागे हुये अभियुक्त मुलायम उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया तथा बरामद असलहा वा कार0 के आधार पर मु0असं0 477/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम भूरा उर्फ हरिकिशन उपरोक्त तथा मु0असं0 478/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सैफी मंसूरी के पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

### बरामदगी का विवरण-

- 1) एक अदद मोटरसाइकिल हीरो एच एफ डीलक्स
- 2) 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 3) 03 कारतूस 315 बोर जिंदा
- 4) 1200 रूपये नकद

**आपराधिक इतिहास भूरा उर्फ हरिकिशन पुत्र परमेश्वरीदयाल निवासी ग्राम कुल्हेण्डा थाना**

**मझगवां जनपद हमीरपुर-**

- 1) मु0अ0सं0 11/22 धारा 380/411/457 भादसं थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर
- 2) मु0अ0सं0 26/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर
- 4) मु0अ0सं0 385/22 धारा 457/380 भादसं थाना राठ जनपद हमीरपुर
- 5) मु0असं0 398/22 धारा 380 भादसं थाना राठ जनपद हमीरपुर
- 6) मु0असं0 468/22 धारा 392/504/506/411 भादसं थाना राठ जनपद हमीरपुर
- 7) मु0अ0सं0 477/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राठ जनपद हमीरपुर
- 8) मु0असं0 31/22 धारा 380/457 भादसं थाना कुलपहाड जनपद महोबा
- 9) मु0अ0सं0 381/22 धारा 457/380 भादसं थाना कोतवाली जनपद महोबा

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त सैफी मंसरी पुत्र सत्तार मंसूरी निवासी पावर हाउस के पास कस्वा**

**व थाना पनवाडी जनपद महोबा:-**

- 1) मु0अ0सं0 385/22 धारा 457/380 भादसं थाना राठ जनपद हमीरपुर
- 2) मु0असं0 398/22 धारा 380 भादसं थाना राठ जनपद हमीरपुर
- 3) मु0असं0 468/22 धारा 392/504/506/411 भादसं थाना राठ जनपद हमीरपुर
- 4) मु0अ0सं0 477/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राठ जनपद हमीरपुर
- 5) मु0अ0सं0 251/21 धारा 308/323/504/506 भादसं थाना पनवाडी जनपद महोबा
- 6) मु0अ0सं0 381/22 धारा 457/380 भादसं थाना कोतवाली जनपद महोबा

**गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम:-**

- उ0नि0 राजेश कुमार शाहू  
आ0 विववेक चौहान  
आ0 संजय कुमार साहू  
आ0 सूर्य प्रकाश गिरि

